

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



---

सं० 293] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 1975/श्रावण 13, 1897  
No. 293] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 1975/SRAVANA 13, 1897

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

*New Delhi, the 4th August 1975*

**S.O. 417 (E)/ECA/2/62.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement (Quality Control) Order, 1962. namely:—

1. (1) This Order may be called the Cement (Quality Control) Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 2 of the Cement (Quality Control) Order, 1962.

(i) in sub-clause (a), after the words 'portland-pozzolana cement' the words "masonry cement" shall be inserted;

(ii) in sub-clause (b), after item (iii), the following item shall be inserted, namely:—

"(iv) No. IS: 3466-1967 relating to masonry cement (First Revision)".

[No. 2-17/74-Cem.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

## उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

का० अ० 417(अ)/ईसीए/2/62.—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः —

1. (1) इस आदेश का नाम सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 है
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1962 के खण्ड 2 में—

(i) उपखण्ड (क) में, “पोर्टलैंड पोर्जोलाना सीमेंट” शब्दों के पश्चात् “चिनाई-सीमेंट” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखण्ड (ख) में, मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जायगी, अर्थात्

“(iv) चिनाई-सीमेंट से सम्बन्धित सं० आई एस० 3466-1967 प्रथम पुनरीक्षण ।”

[सं० 2-17/74-सीमेंट]

दिनेश किशोर सम्मेता, संयुक्त सचिव ।